

## Nestlé India Limited

(CIN: L15202DL1959PLC003786)  
Nestlé House  
Jacaranda Marg  
'M' Block, DLF City, Phase – II  
Gurugram – 122002, Haryana  
Phone: 0124 - 3940000;  
E-mail: investor@in.nestle.com;  
Website: www.nestle.in



**PKR:SG:JK: 107:2025-26**

**12<sup>th</sup> February 2026**

### **BSE Limited (BSE)**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code: 500790

### **National Stock Exchange of India Limited (NSE)**

Exchange Plaza, Plot No. C-1,  
G Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051

NSE Symbol: NESTLEIND

**Subject: Regulation 30 read-with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Newspaper advertisement regarding dispatch of Notice of Postal Ballot electronically**

---

Dear Madam/ Sir,

In furtherance to our letter reference no. PKR:SG:JK: 106:2025-26 dated 11<sup>th</sup> February 2026, please find enclosed copies of newspaper advertisement published in the columns of English Daily "Financial Express" (Delhi and Mumbai editions) and Hindi Daily "Jansatta" (Delhi edition) on 12<sup>th</sup> February 2026, both newspapers having electronic edition, regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot dated 30<sup>th</sup> January 2026 ("Notice").

The Notice seeks approval of members of the Company by means of Postal Ballot only by voting through electronic mode for appointment of Mr. Mandeep Singh Chhatwal (DIN: 11387157) as a Non-Executive Director, Mr. Edouard Dominique Jean Mac Nab (DIN: 11511070) as Whole-time Director, designated as "Executive Director – Finance & Control and Chief Financial Officer" and Mr. Jagdeep Singh Marahar (DIN: 09121056) as Whole-time Director, designated as "Executive Director – Technical".

The same is also being uploaded on the Company's website at [www.nestle.in](http://www.nestle.in).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,


**NESTLÉ INDIA LIMITED**

**PRAMOD KUMAR RAI**

**COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**

Encl.: as above







**Bank of India**  
Safdarjung Enclave Branch  
B-6/8, LSC, Chowdhary Harsukh Marg Safdarjung Enclave  
New Delhi-110029 Tel - 011-46536428

**PUBLIC NOTICE**  
Public Notice regarding outstanding rent of Lockers. It is informed to the General Public that Bank of India, Safdarjung Enclave branch has Overdue Lockers with following details:

S. NO.	LOCKER NO	NAME	ADDRESS
1.	662	S.S. KHULLAR & KAVITA KHULLAR	14 L.S.C. B-6 SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI-110029
2.	528	MADHU GANGWANI & LAKSHMAN K GANGWANI	B-134 ARJUN NAGAR SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI-110029
3.	182	APARNA CHATURVEDI, MANISH SAINI & ANTARYAMI BARKI	B-4/221 SAFDARJUNG ENCLAVE NEW DELHI - 110029

Notice was sent by the branch to above locker holders by registered post to which no reply was received. Therefore, the locker holder or the legal heirs of the Locker Holder is requested to contact the branch within 15 days of this notice and pay the entire outstanding rent of the locker. In case of non-payment of dues, the locker will be broken under legal process.

Safdarjung Enclave Branch

**KEI INDUSTRIES LIMITED**  
(CIN: L74890DL1992PLC051527)  
Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020  
Phone: 91-11-26818840/26818642, Website: www.kei-ind.com  
E-mail: id: cs@kei-ind.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the following Share Certificate issued by the Company are reported to be lost/misplaced and the registered shareholder thereof have applied to the Company/RTA for issue of duplicate share certificate/entitlement letter.

Sr. No.	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.	Name of the Shareholder	No. of Shares
1	0000560	72	120001-120500	Sumer Chordia	500

The public is hereby warned against purchasing and dealing in any way with the above share certificate. Any person(s) who has/have any claim(s) with the Company in respect of said share certificate should lodge such claim(s) at its registered office at the address given within fifteen days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificate/entitlement letter.

For M/s KEI Industries Limited  
Sd/-  
Kishore Kunal  
Sr.VP (Corporate Finance) and Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: 11.02.2026

**THE BUSINESS DAILY**  
FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS

**PUBLIC NOTICE**  
I, Lata R Patil, W/o, Shri. Rohi Das C Patil, R/o, Flat No. A-4/604, Ekta Vihar Apartments, IP Extension, Delhi 110092, hereby give notice to general public, that property documents viz., share certificate, allotment letter and possession letter of the above-said flat/apartment has been misplaced/lost by me and the same is not traceable. I have lodged a formal complaint before P.S.: Mandawali, Vide L.R. No.3333802/2025 dated 07.11.2025, in terms of SO No.430/2014, Whosoever finds the aforesaid documents, kindly call/handover the same to the undersigned.

(Lata R Patil) R/o, Flat No. A-4/604, Ekta Vihar Apartments, IP Extension, Delhi 110092 Mobile No.7776020008

## Classifieds

## PERSONAL

I, FEEZOZ KHAN, S/O-TASSDUQ HUSSAIN-R/O-3874/75 KHIRKI TAFAZZUL HUSSAIN KALAN MAHAL DARYAGANJ, CENTRAL DELHI-110002 HAVE CHANGED MY NAME TO FEEZOZ AKHTAR

0040838184-8

I, FEEZOZ AKHTER KHAN, S/O-TASSDUQ HUSSAIN, R/O-3874/75 KHIRKI TAFAZZUL HUSSAIN KALAN MAHAL DARYAGANJ, CENTRAL DELHI-110002, HAVE CHANGED MY NAME TO FEEZOZ AKHTAR

0040838184-9

I, Shaira Bano W/o Ikramuddin R/o 4026, Gali Khan Khana, Jama Masjid, Delhi-110006, have change my name to Saira Bano Permanently.

0040838094-1

I, Saira W/o Ikramuddin R/o 4026, Gali Khan Khana, Jama Masjid, Delhi-110006, have change my name to Saira Bano Permanently.

0040838094-3

## PROPERTY

## ACCOMMODATION WANTED

## GENERAL

Require 100 - 8000 sqmtr plot Navi Mumbai Kharghar Ulwe Panvel 25 acres Khopoli Karjat. 9820610837

0050283507-1

**PUBLIC NOTICE**  
My clients, Sourabh Goyal, S/o Sh. Nareesh Kumar Goyal & Sh. Nitesh Goyal, S/o Sh. Nareesh Kumar Goyal, Both R/o 86 A/7, 2nd Floor, New Road, Karol Bagh, Central Delhi-110005 have severed their all relations from their Father namely Nareesh Kumar Goyal, S/o Late Sh. Shyam Sundar, R/o 674, Military Road, Punjabi Basti, Anand Parvat Central Delhi-110005 and disowned him from all their movable and immovable properties due to their disobedience. My clients shall not be responsible for any of his criminal acts and civil liabilities.

Abhishek Kumar (Advocate)  
Ch. No. 442-D, Lawyers Block, Saket Courts, New Delhi-17

**PUBLIC NOTICE**  
It is for general information that my client, Sunita W/o Late Ramesh Kumar R/o Flat No. VP-2008, First Floor, Pitampura, Delhi-110034, declares that their Son Mr. Anil Kumar & his wife Mrs. Geeta are not behaving well with my Client. Therefore my client disinherited, disowned and severed all relations with them. They will have no right in movable and immovable properties of my client. Whosoever deals with them, shall do so at his/her own risk.

PARVEEN KUMAR (Advocate)  
Enr No: 07/1005/2016  
3-1/105, 3-3, Colony, Wazirpur, Delhi-52

**NESTLÉ INDIA LIMITED**  
(CIN: L15202DL1959PLC003786)  
Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001  
Email: investor@in.nestle.com | Website: www.nestle.in | Ph: 011-23418891

**NOTICE OF POSTAL BALLOT/ E-VOTING**  
Notice is hereby given that pursuant to Section 110 and Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the Rules") read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April 2020, 03/2025 dated 22<sup>nd</sup> September 2025 and other relevant circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended, the Company has completed dispatch of Notice of Postal Ballot dated 30<sup>th</sup> January 2026 ("the Notice") along with Explanatory Statement on Wednesday, 11<sup>th</sup> February 2026 only through electronic mode to all those members of the Company whose email address was registered with the Company/ Depository Participant(s) as on Friday, 6<sup>th</sup> February 2026 ("Cut-off date"). The requirement for sending physical copy of the Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA Circulars.

Members are hereby informed that:

- the Special Business items as set out in the Notice proposed to be transacted only by way of electronic voting ("remote e-Voting") are as below:
  - to approve appointment of Mr. Mandeep Singh Chhatwal (DIN: 11387157) as a Director (non-executive) of the Company, liable to retire by rotation;
  - to approve appointment of Mr. Edouard Dominique Jean Mac Nab (DIN: 11511070) as a Whole-time Director, designated as "Executive Director - Finance & Control and Chief Financial Officer", for a term of five consecutive years w.e.f. 1<sup>st</sup> March 2026 up to 28<sup>th</sup> February 2031, liable to retire by rotation; and
  - to approve appointment of Mr. Jagdeep Singh Marahar (DIN: 09121056) as a Whole-time Director, designated as "Executive Director - Technical", for a term of five consecutive years w.e.f. 1<sup>st</sup> June 2026 up to 31<sup>st</sup> May 2031, liable to retire by rotation.
- the Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide the remote e-Voting facility to the members to exercise their votes electronically;
- the remote e-Voting period commences on Thursday, 12<sup>th</sup> February 2026 at 9:00 A.M. (IST) and concludes on Friday, 13<sup>th</sup> March 2026 at 5:00 P.M. (IST), thereafter, the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL and e-Voting shall not be allowed beyond the said time. Once members cast their vote on the resolutions, they will not be allowed to change it subsequently;
- only those members, whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Cut-off date, are entitled to cast their votes on the Resolutions;
- the members who have not received the Notice, may write to investor@in.nestle.com and obtain the same, while the Notice is also available on the website of the Company (www.nestle.in), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and NSDL (www.evoting.nsdl.com);
- for any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886-7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Vice-President NSDL, 3<sup>rd</sup> Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051, at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in, who will also address the grievances connected with the facility for remote e-Voting. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email ID: investor@in.nestle.com
- result of Postal Ballot shall be declared by Saturday, 14<sup>th</sup> March 2026, and shall be placed along with the Scrutinizer's Report on the Company's website at www.nestle.in, displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company and shall be communicated to National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and NSDL.
- members, whose KYC details (i.e. postal address with PIN code, mobile number, bank account details, PAN linked with Aadhaar etc.) or e-mail address is not registered/ updated with the Company or with their respective Depository Participant(s), and who wish to receive the Notice, and all other future communications sent by the Company from time to time, can get their KYC details and e-mail address registered/ updated by following the steps as given below:
  - Members holding shares in physical form, may register/ update their e-mail addresses by submitting duly filled and signed request letter in Form ISR-1 along with self-attested copy of the PAN Card linked with Aadhaar; and self-attested copy of any document in support of the address of the member (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport etc.) and such other documents as prescribed in the Form ISR-1, by sending an e-mail at investor@in.nestle.com from their registered email address followed by mandatorily sending the physical copy of the same through post at the Registered Office of the Company or directly to the RTA, M/s. Alankit Assignments Limited; and if email address is not registered - by sending the physical copy of the same through post at the Registered Office of the Company or directly to the RTA; and
  - Members holding shares in demat form, may update their KYC details and e-mail address with their Depository Participant(s).
- as per SEBI Listing Regulations and SEBI Circulars, as applicable, any payment of dividend by the Company shall be made only through electronic mode to eligible members.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Act and MCA Circulars. For any queries or concern members may write on investor@in.nestle.com.

**For Nestlé India Limited**  
Pramod Kumar Rai  
Company Secretary

**Date: 11<sup>th</sup> February 2026**  
Place: Gurugram

**amagi**  
**AMAGI MEDIA LABS LIMITED**  
(formerly known as Amagi Media Labs Private Limited)

CIN: U73100KA2008PLC045144  
Registered Office: Raj Alkaa Park, Sy. No. 29/3 & 32/2, 4th floor, Kalena Agrahara Village, Begur Hobli, Bengaluru - 560076

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025**

The Board of Directors of Amagi Media Labs Limited, at its meeting held on February 11, 2026, approved the Unaudited Financial Results (standalone & consolidated) of Amagi Media Labs Limited for the Quarter and Nine months ended December 31, 2025 ("Financial Results").

The Financial Results along with Limited Review Report, have been hosted on the Company's website at <https://www.amagi.com/investors/quarterly-financials> and can be accessed by scanning the Quick Response Code.

For and on behalf of the Board of Directors  
**Amagi Media Labs Limited**  
(formerly known as Amagi Media Labs Private Limited)  
Sd/-  
Baskar Subramanian  
Managing Director & CEO

Date: February 11, 2026  
Place: Bengaluru

**Note:** The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

**Radico**  
SPIRIT OF EXCELLENCE  
presents  
**EXPRESS Aqpa**  
co-presented by  
**SHIV NADAR**  
INSTITUTION OF EXCELLENCE DEDICATED TO BE  
UNIVERSITY  
DELHI NCR

**DHARMENDRA PRADHAN**

Minister of Education Government of India

in conversation with  
**Vandita Mishra**  
National Opinion Editor  
The Indian Express

Associate Partners: **The Indian EXPRESS** JOURNALISM OF COURAGE, **FOSTIIMA Business School**, **MERIDIEN NEW DELHI**

**S.P.APPARELS LIMITED**  
CIN: L18101TZ2005PLC012295  
Regd. Office: 39-A, EXTENSION STREET, KAIKATTIPUDUR, AVINASHI TIRUPUR - 641 654  
Tel: +91-4296-714000, Fax: +91-4296-714280, 714281 Email ID: cs@spapparels.com, Website: www.spapparels.com

**STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025**

The Board of Directors of S.P.Apparels Limited at its meeting held on February 11, 2026, based on the recommendation from Audit Committee has approved the unaudited financial results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025, subject to Limited Review by the Statutory Auditor of the Company, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015.

The aforesaid results are also being disseminated on Company's website at <https://www.s-p-apparels.com/wp/financial-information/> and can also be accessed by scanning a Quick Response code give Below:

Place: Avinashi  
Date: February 11, 2026

**For S.P.Apparels Limited**  
P. Sundararajan  
Chairman & Managing Director  
DIN: 00003380

**APM TERMINALS**  
Lifting Global Trade

**GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED**  
Registered Office: Pipavav Port, At Post Rampara-2, Tal. Rajula, Dist. Amreli 365560  
CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413  
Website: www.pipavav.com Email: investorrelationinppv@apmterminals.com

**STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2025**

The Board of Directors in the Meeting held on 10TH February 2026 have approved the financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2025.

The financial results along with the Limited Review report of Statutory Auditors are available on the website of Stock Exchanges and on the Company website. The results can be accessed by scanning the following QR code:

For Gujarat Pipavav Port Limited  
Place: Mumbai  
Date: 10th February 2026

**Girish Aggarwal**  
Managing Director



# महिला वकील से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती : कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 11 फरवरी।

एक महिला वकील द्वारा बलात्कार पीड़िता के खिलाफ फेसबुक पोस्ट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल बागची की पीठ ने कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह न केवल आपत्तिजनक है बल्कि एक महिला वकील से ऐसी अपेक्षा विचलुक्त नहीं की जा सकती।

पीठ के समक्ष यह मामला केरल की वकील दीपा जोसेफ की याचिका पर आया था। दीपा जोसेफ ने केरल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह पोस्ट केरल के कांग्रेस विधायक राहुल मामकट्टथिल के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले की शिकायतकर्ता को लेकर की गई। सुनावई की

शुरुआत में ही पीठ ने फेसबुक पोस्ट की भाषा और लहजे पर गहरी असहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता वकील से कहा-क्या आपसे इस तरह की भाषा की अपेक्षा की जाती है? आप एक एडवोकेट हैं।

इस पर दीपा जोसेफ ने जवाब दिया कि पोस्ट की सामग्री आधारित थी। पीड़िता के पति मेरे पास आए, उन्होंने मुझे जानकारी दी और उसी के आधार पर मैंने पोस्ट किया। इस जवाब से असंतुष्ट होकर प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया-क्या हम एक प्रैक्टिस कर रही महिला एडवोकेट

**बलात्कार पीड़िता के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने का मामला।**

से यह उम्मीद करते हैं कि वह ऐसी बातें लिखे? दीपा जोसेफ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने न तो कोई मानहानिकारक बात लिखी और न ही पीड़िता को पहचान उजागर की। न्यायमूर्ति जायमाल बागची ने पोस्ट की भाषा को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक महिला के प्रति अत्यंत अपमानजनक है।


**केईआई इंस्ट्रीज लिमिटेड**  
(सीआइएन: L748990L1992PLC005127)  

पंजीकृत कार्यालय: सी-90, ओबला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली-110 020  
फोन: 91-11-2681840/2681862, फैक्स: 91-11-2681840  
ई-मेल: [enquiry@keiindia.com](mailto:enquiry@keiindia.com)



**सूचना**  

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/पुर्ण हो गये हैं और उक्तके अनिवार्य शेषावकाश के तहत निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र/पंजता पत्र जारी करने के लिए कंपनी/आर्टीएफ को आवेदन किया है।

क्र. सं.	फोलियो सं.	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या
1	0000560	72	120001-120500	सुमेर चोडिया	500

जनता को एतद्वारा उपरोक्त शेयर प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह की खरीद और बिक्री के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। कोई भी व्यक्ति (और/जिसका उक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कंपनी के साथ कोई दावा है/है, को इसे नोटिस के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में दावा करना चाहिए। जिसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा और कंपनी द्वारा इसीके शेयर प्रमाणपत्र /पंजता पत्र जारी किये जायेंगे।

**कृते मैसर्स केईआई इंस्ट्रीज लिमिटेड**  
हस्ता/—  
किशोर कुमार  
वरिष्ठ वीपी (कॉर्पोरेट फाइनेंस)  
और कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 11.02.2026

**ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
**प्लॉट संख्या-01, सेक्टर-नॉलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी,**  
**जिला – गौतमबुद्ध नगर (30390)**

**सार्वजनिक सूचना**  

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत M/s Rudra Buildwell Infra Pvt. Ltd. मुख्य संख्या- GH-05C, Sector-16, Greater Noida को दिनांक 24.10.2025 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त विकासकर्ता द्वारा (Group Housing Project) का आंशिक अधिगम प्रमाण पत्र हेतु आवेदन संख्या-CG-11235 दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से Tower& A, B,C & D एवं वाणिज्यिक हेतु आवेदन किया गया है। तत्काल में UP-Apartment-Act-2010 & Amendment 2016 in Section-4 Sub Section-B के अंतर्गत परियोजना के आवंटियों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति मानचित्र एवं Declarations as per UP Apartment Act- 2010 परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से सायं 6:00 बजे के मध्य नियोजन विभाग में तथा प्राधिकरण की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त परियोजना के आवंटियों द्वारा Sanction Map एवं Declarations as per UP Apartment Act-2010 के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने के 30 दिनों के अन्दर आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्ति Email Id-gmplaning@gnida.in पर अथवा लिखित रूप में अपने आवेदन पत्र नाम पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, मुख्य संख्या- 1, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा में स्थित महाप्रबन्धक (नियोजन व वास्तु) को संबोधित करते हुए सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों के अन्दर जमा करायी जा सकती है।

**प्रमारी महाप्रबन्धक ( नियोजन / वास्तु)**  
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



**बैंक ऑफ इंडिया**  
Bank of India

अंसरी रोड शाखा, 3, दरियामंज, नई दिल्ली-110002  
फोन: 011-23280192, 23250072  
ई-मेल: [ansariaad.newdelhi@bankofindia.co.in](mailto:ansariaad.newdelhi@bankofindia.co.in)

**कच्चा सूचना**  

जैसा की वित्तीय परिपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, एन-16, कर्माट संसद, नई दिल्ली-110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन निमणवली,2002 की धारा 13 को उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 24.11.2025 की जारी कर ऋणधारकों मैसर्स विमनेज रियलटेक प्रा. लि., इसके निदेशकों श्री अमित डावस और श्री मोहित आनंद के माध्यम से और (गारंटर) श्री अमित डावस, सुपुत्र स्व. श्री हेतन डावस, श्री मोहित आनंद, पुत्र श्री ए.के. निगम और श्रीमती शक्ति आनंद, पत्नी श्री मोहित आनंद को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि रु. 4,14,97,782.15 (रुपये चार करोड़ चौदह लाख सत्तानवे हजार सात सौ ब्यासी और पंद्रह पैसे) तथा बैंक द्वारा किए गए अन्य व्याज, लागत और शुल्कों वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर को सूचित किया जाता है की आज दिनांक 11 फरवरी, 2026 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन निमणवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नचें वर्णित राशि रु. 4,14,97,782.15 (रुपये चार करोड़ चौदह लाख सत्तानवे हजार सात सौ ब्यासी और पंद्रह पैसे) तथा बैंक द्वारा किए गए अन्य व्याज, लागत और शुल्कों आदि के लिए बैंक ऑफ इंडिया, अंसरी रोड शाखा, 3, दरियामंज, नई दिल्ली-110002 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आग्रह की जाती है।

**अचल संपत्ति का विवरण**  
(क) श्री मोहित आनंद और श्रीमती शक्ति आनंद के स्वामित्व में पूर्ण रूप से निर्मित प्लेट नं. ए-1201, 12वीं मंजिल, टावर ए, प्रतीक विटरेरिया, जिएन-1, सेक्टर 77, नौएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, जिसका सुपर फ्लोर 1560 वर्ग फुट और कार्यक्षेत्र 1247.98 वर्ग फुट है। सौंपाई: उत्तर-पूर्व: खुला/प्लेट नं. 1206, दक्षिण-पश्चिम: टावर बी, दक्षिण-पूर्व: मुख्य प्रवेश/नवे खुला क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम: प्रवेश/साला/प्लेट नं. 1202

दिनांक: 11.02.2026, स्थान:नई दिल्ली अधिष्ठाता अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



**केन फिन होम्स लिमिटेड**  
CIN: L85110KA1987PLC008699


केनरा बैंक के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं सी-3, सेक्टर-1, नौएडा पिनकोड-201301, ई-नं: noida@canfinhomes.com, फोन: 0120-2970164/65/67 नोबोडल: 7625079126

**[नियम 9(1) के परन्तुक देखें]**  
**अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**  
**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना**  
एतद्वारा सर्व सामान्य को और विशेष रूप से कर्जदार(री) तथा गारंटर(री) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक /आभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कच्चा केन फिन होम्स लिमिटेड, नौएडा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, रितु राज ठाकुर पुत्र हीरा लाल ठाकुर, सोनी पंत पत्नी ऋतु राज ठाकुर (बच्चाकर्ता) और राकुर पंत पुत्र सुरेश को. पंत (गारंटर) की तर्फ केन फिन होम्स लिमिटेड की 11.02.2026 तक बकाया राशि रु. 26,71,978/- (रुपये छब्बीस लाख इकहतर हजार नौ सौ छिहतर मात्र) उस पर आगे व्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक 06.03.2026 को जैसी है वहां है, जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य रु. 18,00,000/- (रुपये साठलाख मात्र) तथा ब्रोकर राशि जमा रु. 1,80,000/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) होगी।


**संपत्ति का विवरण**  
दूसरी मंजिल का दाहिना हिस्सा (बिना छत के), 25.083 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी, जिस पर एमसीडी नंबर 187 लिखा है, जीवन नगर खसरा नंबर-275/3/5, खेवट नंबर 3, खतौनी नंबर 102, गांव किलोकोरी, नई दिल्ली-110014 में स्थित है। चौहद्दी: पूर्व: साइट प्लान के अनुसार, पश्चिम: साइट प्लान के अनुसार, उत्तर: साइट प्लान के अनुसार, दक्षिण: साइट प्लान के अनुसार

**ज्ञात भार सूच्य**  
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx>) में उपलब्ध कराई गई है। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक: [www.bankeactionwizard.com](http://www.bankeactionwizard.com) देखें।

तिथि: 11.02.2026 हस्ता/—  
स्थान: नौएडा प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड



**बैंक ऑफ़ बड़ौदा**  
Bank of Baroda




**शाखा — आर ओ एस ए आर बी, ईस्ट दिल्ली**  
**पता— 8718, प्रथम तल, डीबी गुप्ता मार्ग, रामनगर,**  
**पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055, ईमेल: [SAREDL@bankofbaroda.co.in](mailto:SAREDL@bankofbaroda.co.in)**

**अनुमंक — A**  
**[ई-बिक्रय पोर्टल पर आयोजित नीलामी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए संक्षिप्त बिक्री सूचना]**  
**अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6)देखें]**  
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन**  
आम लोग को और विशेष रूप से कर्जदार(री), बंधककर्ता(री) और गारंटर(री) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कच्चा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नलिखित कर्जदार(री), बंधककर्ता(और) गारंटर(री) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूप की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(री), बंधककर्ता(और) गारंटर(री) /प्रतिभूति आस्तियों/ बकाया /आरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली बुद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदास / गारंटरस/ बंधककर्ताओं का ईमेल एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक)	कुल सविदात्मक देय राशि	ई-नीलामी की तिथि / समय से अंतिम समय तक	ई-नीलामी की तिथि / समय से अंतिम समय तक	आरक्षित मूल्य	अचल संपत्ति का सांकेतिक कच्चा में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	निरिक्षण की तिथि एवं समय
1	1-मैसर्स महावीर इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडिंग कंपनी, मालिक श्री महावीर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह महान नगर 111, सारस्वत रोड के पास, सोहन रोड, फरीदाबाद, हरियाणा 121001 2-श्री गणेश सिंह (मालिक) पुत्र श्री हरि सिंह निवासी 1436, गली नंबर-18, संजय एन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 3-श्रीमती रश्मा देवी (बंधक एवं गारंटर) पत्नी श्री महावीर सिंह (गारंटर) निवासी 1436, गली नंबर-18, संजय एन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा-121001	सम्पत्ति का बह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 1047 (ब्लॉक 1436) प्लॉट नं. 42, सोहना रोड, चाचा चौक रोड, न्यू संजय रोड एन आई टी फरीदाबाद -121001, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, जो श्रीमती रश्मा देवी के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर में – उक्त की सम्पत्ति, दक्षिण में – 20फीट चौड़ी रोड, पूर्व में – प्लॉट नं. 41, पश्चिम में – प्लॉट नं. 43	रु. 40,40,746.72 (चालीस लाख चालीस हजार सात सौ चिन्तालीस और बहतर पैसे मात्र मात्र) दिनांक 10.02.2026 तक	02.03.2026 अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 37,00,000/- ईएमडी रु. 3,70,000/- और बोली बुद्धि राशि रु 1,00,000/-	संपत्ति सांकेतिक कच्चा में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा	27.02.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक	

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> and online auction portal <https://baanknet.com>. में दिए गए लिंक को देखें।  
इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, श्री सरोज कुमार, मोबाइल-7043249474 से सम्पर्क करें।

**दिनांक : :11-02-2026, स्थान : नई दिल्ली**



**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**  
A Government of India undertaking

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फरीदाबाद सेक्टर 28 (76490) शाखा, पता: फरीदाबाद सेक्टर 28 (76490) एससीएफ 112 सेक्टर-28, मार्केट ग्रेन रोड, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, 121002**  
**संपर्क नंबर : 8928176490 ग्रेड आईडी [ubin0810151@unionbankofindia.bank.in](mailto:ubin0810151@unionbankofindia.bank.in)**

**संदर्भ : SAR76490270962109187842526**

**दिनांक: 12/01/2026**  
**स्थान : फरीदाबाद**

**जेवा में, कर्मदार/कर्मदारगण**  
साहिल बंसल  
मकान नंबर 1628 सेक्टर 28 टी.टी. पब्लिक स्कूल फरीदाबाद 121008 भारत  
महोदय / महोदया

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13 (3) के तहत सूचना**  
आप इसमें संबोधितों सं. 1 ने हमारी फरीदाबाद सेक्टर-28 (76490) शाखा से निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं और बकाया राशि/किरा/व्याज चुकाने/खाता संतोषजनक रूप से परिचालित करने में असफल रहे हैं और अतएव, आय मान्यता और विश्वेपूर्ण लेखांकन मानकों के संबंध में आयबीआई दिशानिर्देशों के निर्बन्धनों में आपका खाता/खाते 28-09-2021 को अनाजंक आरंभ की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका/किए जा चुके हैं। आपके खाते में दिनांक 12-01-2026 तक रु. 6,27,500.92 बकाया है। आप सं. 1 की तरफ उपरोक्त खाते के संबंध में बैंक की बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है :

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि अर्थात 28-09-2021 तक बकाया राशि	यूआरएमए/लार्ज बर्ली किया नगर बकाया 28-09-2021 से 12-01-2026 तक	बैंड ब्याज	बैंक डाक उपगत लागत/प्रभार	कुल बकाया राशि
यूनियन माइल्स	435630.33	191870.59	(साधारण)	0.00	627500.92
कुल बकाया :-					627500.92

बैंक को देय धनराशि या अधिकतम देय धनराशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए साहिल बंसल ने 27-06-2017 को दस्तावेज निष्पादित किए थे और निम्नलिखित द्वारा प्रतिभूति हित सृजित किया था :  
चल संपत्ति का दृष्टिबंधन नीचे दिया गया है:-

**वाहन का दृष्टिबंधन : हुई और 1.2 एनटी सीएनजी पंजीकरण संख्या HR51CSJ593 पेट्रोल/डीजेल/बीएस 6 रंग ग्राइन्ड बे**  
अतएव, एतद्वारा आपसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के निर्बन्धनों में रु. 6,27,500.92 + आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार सविदात्मक दर पर आगे व्याज और प्रभार का भुगतान करने और इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर अपनी देयदायियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने की मांग की जाती है, ऐसा नहीं करने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने के लिए बाध्य होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप यह सूचना प्राप्त होने पर बैंक की सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान अथवा संयवहार नहीं कर सकते हैं। आप का ध्यान, प्रत्यभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**प्रवीण,**  
**प्राधिकृत अधिकारी**

POST-OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(2) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

**ESHA MEDIA RESEARCH LIMITED**  
Corporate Identification Number: L72400MH1984PLC322857  
Registered Office at: T13 14-16, A Wing, 2nd Floor, Satyam Shopping Centre, Ghatkopar (East), Mumbai 400 077, Maharashtra, India; Tel. No.: +91-22- 4096 6666; Email Id: [ijyer@eshamedia.com](mailto:ijyer@eshamedia.com) / [compliance@eshamedia.com](mailto:compliance@eshamedia.com); Website: [www.eshamedia.com](http://www.eshamedia.com)

**Open Offer for Acquisition of to 22,89,802 (Twenty-two Lakhs Eighty-Nine Thousand Eight Hundred and Two) Equity Shares of face value of Rs. 10/- each from Shareholders of Esha Media Research Limited by Opulus Bizerve Private Limited ("Acquirer").**

This Post Offer Advertisement is being issued by Choice Capital Advisors Private Limited on behalf of the Acquirer in connection with the offer made by the Acquirer in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on August 13, 2025 in the Financial Express (English National Daily) all editions, Jansatta (Hindi National Daily) all editions and Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) Newspapers.

	1. Name of the Target Company	: Esha Media Research Limited
	2. Name of the Acquirer(s) and PAC	: Opulus Bizerve Private Limited
	3. Name of the Manager to the Offer	: Choice Capital Advisors Private Limited
	4. Name of the Registrar to the Offer	: KFin Technologies Limited
	5. Offer Details	
a.	Date of Opening of the Offer	: Tuesday, January 13, 2026
b.	Date of Closure of the Offer	: Wednesday, January 28, 2026
6.	Date of Payment of Consideration	: Wednesday, February 04, 2026
7.	Details of Acquisition:	

Sl. No	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actual
7.1	Offer Price	₹15.00	₹15.00
7.2	Aggregate number of shares tendered	22,89,802	1
7.3	Aggregate number of shares accepted	NA	1
7.4	Size of Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	₹3,43,47,030	₹15
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements/Public Announcement (No & %)	18,24,421 23.37	18,24,421 23.37
7.6	Shares Acquired by way of Agreement		
	• Number	1,50,000	1,50,000*
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	1.92%	1.92%
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer		
	• Number	22,89,802	1
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	26%	0.00
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Announcement (by way of preferential allotment)		
	• Number of shares acquired	10,00,000	10,00,000*
	• % of the shares acquired	11.35	11.35%
7.9	Post offer shareholding of Acquirer		
	• Number	52,64,233	29,74,422*
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	59.77%	33.77%
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public		
	• Number	37,70,110	37,70,110
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	48.29%	48.29%
	Post	14,80,308	37,70,109
		16.81%	42.80%*

\*Note: The sellers are yet to transfer 1,50,000 shares acquired by way of SPA to the Acquirer. Further, the Company is yet to receive in-principle approval from the BSE for the preferential allotment and hence 10,00,000 shares are yet to be allotted to the Acquirer.

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.


9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the Registered Office of the Target Company.

**Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer.**

**Choice**  
The Joy of Banking

**Choice Capital Advisors Private Limited**  
Sunil Patodia Tower, Plot No. 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai, 400 099, Maharashtra, India.  
Telephone: +91 22 6707 9999 / 7919  
E-mail: [emr.openoffer@choiceindia.com](mailto:emr.openoffer@choiceindia.com)  
Investor Grievance E-mail: [regulator\\_advisors@choiceindia.com](mailto:regulator_advisors@choiceindia.com)  
Contact Person: Nimisha Joshi/Mahima Shrivastriwar  
Website: [www.choiceindia.com/merchant-investment-banking](http://www.choiceindia.com/merchant-investment-banking)  
SEBI Registration No.: INM000011872  
Place : Mumbai  
Date: February 11, 2026

CONCEPT



**नेस्ले इंडिया लिमिटेड**  
(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजीकृत कार्यालय: 100/101, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110 001  
ईमेल: [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com), वेबसाइट: [www.nestle.in](http://www.nestle.in), फोन: 011-23418891

**पोस्टल बैलेट / ई-वोटिंग की सूचना**

सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा धारा 108 एवं सामान्य प्रयोग्य प्रावधानों, यदि कोई हो, ("अधिनियम"), कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 तथा नियम 20 ("नियमों"), के साथ पठित, कॉर्पोरेट कार्य संचालन द्वारा जारी सामान्य परिषद संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 3/2025, दिनांक 22 सितंबर 2025 अन्य प्रासंगिक संसूक्त ("एमएसडीए परिसर"), सेबी (सूचीबद्धन (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अधिसूचना) विनियम, 2015 तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, द्वारा जारी सामान्य बैलेट के सचिवीय मानक ("एसएस-2") के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पोस्टल बैलेट नोटिस, दिनांक 30 जनवरी 2026 व्याख्यात्मक बकाया के साथ ("सूचना"), 11 फरवरी 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषण का काम पूरा कर लिया है जिसका ईमेल पता 6 फरवरी 2026 ("कट-ऑफ डेट") पर कंपनी के या डिजिटल प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। पोस्टल बैलेट नोटिस और पोस्टल बैलेट प्रपत्र की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को संबंधित एमसीए परिसरों के माध्यम से स्थगित कर दिया गया है।

सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि:

(क) सूचना में उल्लिखित विशेष कार्य को केवल पोस्टल बैलेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मतदान ("रिमोट ई वोटिंग") द्वारा संचालन किये जाने का प्रस्ताव है।

i. कंपनी में श्री मन्दीप सिंह छटवाल (डी आई एन: 11387157) को गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति, जो रोडेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे;

ii. श्री एंड्रयुआई डोमिनिक जीन पैक नैब (डी आई एन: 11511070) की पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, जिन्हें कार्यकारी निदेशक-विवत एवं नियंत्रण तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, यह नियुक्ति 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2031 तक लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, जो रोडेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे; तथा

iii. श्री जगदीप सिंह माहर